



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 7 अप्रैल, 2022

चैत्र 17, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

संख्या 373 / 77-3-2022-69(एम)-2021

लखनऊ, 7 अप्रैल, 2022

अधिसूचना

प0आ0-67

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार का यह समाधान हो गया है कि जिला बुलन्दशहर की तहसील-स्याना के ग्राम पौटा कबूलपुर में 0.0990 हेक्टेयर, कुचेसर में 0.2300 हेक्टेयर, बांहरपुर में 0.1960 हेक्टेयर, हिगवाडा में 0.4957 हेक्टेयर, तर्करवपुरलाडपुर में 1.1645 हेक्टेयर एवं बीहटा में 0.0016 हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल **2.1868 हेक्टेयर** भूमि की, लोक प्रयोजन अर्थात् उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु आवश्यकता है।

2-राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण अभिकरण द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन किया गया था और उसने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत कर दी हैं जिसने दिनांक 04.04.2022 को उसकी संस्तुति को अनुमोदित कर दिया है।

3-संक्षेप में, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना से संबंधित बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियाँ निम्नानुसार हैं :-

(क) गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना एक पारंपरिक परियोजना है, जो किसी प्रभावित ग्राम में अधिकतम 120 मी0 चौड़ाई की भूमि पट्टी पर संचालित की जा रही है। इस प्रकार यह परियोजना, किसी ग्राम के अधिकांश अथवा कुल क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर रही है ताकि इस परियोजना से विस्थापन नगण्य हो।

(ख) यद्यपि इस परियोजना के संबंधित ग्रामों में कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना संभाव्य है किन्तु भूमि के सर्किल दर के चार गुना के बराबर के प्रतिकर से कृषकों को फार्मों का उन्नयन करने, फार्म मशीनरी में वृद्धि करने और सिंचाई सुविधाओं को विकसित करने में सहायता प्राप्त होगी।

(ग) भूमि अर्जन के प्रतिकर से वैकल्पिक रोजगार के साधनों में विकास, उत्तम आवास निर्माण, परिवहन के साधनों तथा कृषि प्रौद्योगिकी में विकास होना संभाव्य है। इससे भू-धृतियों में होने वाली ह्रास की क्षति की पूर्ति होगी।

(घ) लम्बी दूरी की इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों का राज्य की राजधानी लखनऊ से जुड़ना संभाव्य होगा जिससे समय और लागत में कमी आयेगी और वाणिज्यिक क्रियाकलापों का विकास होगा। इससे दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों, फलों एवं सब्जियों तथा अन्य विनश्वर वस्तुओं को बड़े बाजारों तक ले जाने में सुविधा होगी और यह कृषि एवं सहबद्ध प्रयोजनों में सहायक होगा।

(ङ.) तीव्र एवं अपेक्षाकृत उत्तम परिवहन साधनों की वृद्धि से पर्यटन, चिकित्सा परिचर्या और अन्तर्राज्यीय परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा।

(च) अतएव बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह की संस्तुति निम्नानुसार है –

(एक) जिला बुलन्दशहर में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रयोजनार्थ भूमि अर्जित करना लोकहित में है और इससे लोकप्रयोजन की पूर्ति होती है।

(दो) इस परियोजना की संभाव्य प्रसुविधाएं, सामाजिक व्यय एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की अपेक्षाकृत अधिक है और अर्जित की जाने वाली कुल भूमि, इस परियोजना के लिए अपेक्षित कुल भूमि से अत्यंत कम है।

4-समिति की उपरोक्त संस्तुतियों के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना द्वारा प्रभावित क्षेत्र के लिए सर्किल दर का पुनरीक्षण, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग/कलेक्टर, बुलन्दशहर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण किये जाने की प्रक्रिया, उक्त अधिनियम की धारा 26 में उल्लिखित है। उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में यह भी उल्लिखित है कि निकटतम समीपस्थ क्षेत्र में स्थित समान प्रकार की भूमि के औसत विक्रय मूल्य का अवधारण, कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।

5-इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है।

6-अतएव, राज्यपाल सामान्य सूचना हेतु यह अधिसूचित करती हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

### अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	पौटाकबूलपुर	1047	0.0990
योग-					01किता	0.0990
2	बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	कुचेसर	514	0.2300
योग-					01 किता	0.2300
3	बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	बांहपुर	1683	0.0010
	बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	बांहपुर	1651	0.1300
	बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	बांहपुर	1652	0.0450
	बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	बांहपुर	1600	0.0200
योग-					04 किता	0.1960
4	बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	हिगवाडा	71 / 1043	0.0110
	बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	हिगवाडा	74	0.0630
	बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	हिगवाडा	277	0.0255
	बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	हिगवाडा	278	0.0775

	बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	हिगवाडा	289	0.0229
	बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	हिगवाडा	298	0.0086
	बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	हिगवाडा	302	0.0162
	बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	हिगवाडा	243	0.0247
	बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	हिगवाडा	242	0.0002
	बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	हिगवाडा	229	0.0233
	बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	हिगवाडा	225	0.1250
	बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	हिगवाडा	672	0.0014
	बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	हिगवाडा	673	0.0014
	बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	हिगवाडा	276	0.0950
योग—					14 किता	0.4957
5	बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	तर्करवपुरलाडपुर	973	0.0320
	बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	तर्करवपुरलाडपुर	1050 / 1108	0.1152
	बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	तर्करवपुरलाडपुर	1069	0.1470
	बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	तर्करवपुरलाडपुर	1068	0.0083
	बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	तर्करवपुरलाडपुर	1070	0.8620
योग—					05 किता	1.1645
6	बुलन्दशहर	स्याना	स्याना	बीहटा	287	0.0016
योग—					01 किता	0.0016
महायोग—					26 किता	2.1868 हेक्टेयर

7—राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन यथा उपबन्धित तथा विनिर्दिष्ट रूप में, भूमि अर्जन के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने, भूमि में प्रवेश करने तथा उसका सर्वेक्षण करने, किसी भूमि का समतलीकरण करने, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित समस्त कार्य करने के लिए भी कलेक्टर को प्राधिकृत करती हैं।

8—उक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना को प्रकाशित किये जाने के पश्चात् 60 दिन के भीतर अपने क्षेत्र में भूमि अर्जन करने के विरुद्ध लिखित रूप में कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

9—उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन कोई व्यक्ति, ऐसी अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाहियां पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा उसका संव्यवहार अर्थात् विक्रय/क्रय नहीं करने देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, बुलन्दशहर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,  
अरविन्द कुमार,  
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 373 /LXXVII-3-22-69(M) /21 dated 7 April, 2022:

No. 373 /LXXVII-3-22-69(M) /21

*Dated Lucknow, April 7, 2022*

Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act), whereas the Government of Uttar Pradesh is satisfied that a total of 2.1886 Hectares of land is required in the village Pota Kabulpur's 0.0990 hectares, Kuchesar's 0.2300 hectares, Bahapur's 0.1960 hectares, Hingwara's 0.4957 hectares, Takarravpur Ladpur's 1.1645 hectares, and Behta's 0.0016 hectares, Tehsil Syana, District Bulandshahr for public purpose, namely, Ganga Expressway Project through the Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority.

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submitted its recommendations to the Government of Uttar Pradesh which has approved its recommendation on 04.04.2022 .

3. In brief, the recommendations of Multi Disciplinary Expert group regarding Social Impact Assessment report and Social Impact Management Plan is as follows-

(a) Ganga Expressway is a linear project which is being run upon a land stretch in maximum 120 mt. width in any affected village. In this way this project is not affecting major or total area of any village. So the displacement from this project is negligible.

(b) Though this project is likely to reduce the cultivable area in the concerned villages but compensation equal to four times of the circle rate of the land will help the farmers to upgrade the farms, increase in farm machinery and development of irrigation facilities.

(c) The compensation of the land acquisition is likely to develop alternate employment measures, construction of better houses, and development of means of transport and agriculture technology. This will compensate the loss due to reduction in land holdings.

(d) This long distance project is likely to connect the remote areas of Uttar Pradesh with the state capital Lucknow reducing the time and cost and improving the commercial activities in the remote areas . It will cause convenience in transporting milk and milk products, fruits and vegetables and other perishable items to big markets and this will help in agricultural and allied purposes.

(e) Growth of fast and better means of transport will help in development of tourism, medical attendance as well as interstate transport.

(f) Therefore, the recommendation of Multi Disciplinary Expert group is as follows:-

(i) It is in the public interest to acquire land for the purpose of Ganga Expressway Project in District Bulandshahr and it serves the public purpose.

(ii) The probable benefits from this project are more than the social expenditure and adverse Social Impact and total land to be acquired is much less than the total land required for this project.

4. In reference with the above recommendations of the committee, it is worthy to be noted that the revision of circle rate for the area effected by Ganga Expressway project, will be done by Stamp and Registration Department/Collector, Bulandshahr per the stipulated procedure.

Procedure for determination of market value of land by Collector is mentioned in section-26 of the said Act. It is also mentioned in clause (b) of sub-section(1) of the said section, that average sale price for similar type of land, situated in the nearest vicinity area will be determined by the Collector.

5. No family is likely to be displaced, due to land acquisition for this project.

6. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below, is needed for public purpose:-

**SCHEDULE**

Sr. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired (in hect.)
1	Bulandshahr	Syana	Syana	Pota kaboolpur	1047	0.0990
Total					01 kita	0.0990
2	Bulandshahr	Syana	Syana	Kuchesar	514	0.2300
Total					01 Kita	0.2300
3	Bulandshahr	Syana	Syana	Banhpur	1683	0.0010
	Bulandshahr	Syana	Syana	Banhpur	1651	0.1300
	Bulandshahr	Syana	Syana	Banhpur	1652	0.0450
	Bulandshahr	Syana	Syana	Banhpur	1600	0.0200
Total					04 Kita	0.1960
4	Bulandshahr	Syana	Syana	Hingwara	71/1043	0.0110
	Bulandshahr	Syana	Syana	Hingwara	74	0.0630
	Bulandshahr	Syana	Syana	Hingwara	277	0.0255
	Bulandshahr	Syana	Syana	Hingwara	278	0.0775
	Bulandshahr	Syana	Syana	Hingwara	289	0.0229
	Bulandshahr	Syana	Syana	Hingwara	298	0.0086
	Bulandshahr	Syana	Syana	Hingwara	302	0.0162
	Bulandshahr	Syana	Syana	Hingwara	243	0.0247
	Bulandshahr	Syana	Syana	Hingwara	242	0.0002
	Bulandshahr	Syana	Syana	Hingwara	229	0.0233
	Bulandshahr	Syana	Syana	Hingwara	225	0.1250
	Bulandshahr	Syana	Syana	Hingwara	672	0.0014
	Bulandshahr	Syana	Syana	Hingwara	673	0.0014
	Bulandshahr	Syana	Syana	Hingwara	276	0.0950
Total					14 Kita	0.4957
5	Bulandshahr	Syana	Syana	TakravpurLadpur	973	0.0320
	Bulandshahr	Syana	Syana	TakravpurLadpur	1050/1108	0.1152
	Bulandshahr	Syana	Syana	TakravpurLadpur	1069	0.1470

	Bulandshahr	Syana	Syana	TakrapurLadpur	1068	0.0083
	Bulandshahr	Syana	Syana	TakrapurLadpur	1070	0.8620
Total					05 Kita	1.1645
6	Bulandshahr	Syana	Syana	Behat	287	0.0016
Total					01 Kita	0.0016
Grand Total					26 Kita	2.1868

7. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig and do all the Acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the said Act.

8. Under section 15 of the said Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

9. Under sub- section (4) of section 11 of the said Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

**Note:** A site Plan of the land may be inspected in the office of the Collector, Bulandshahr.

By order,  
ARVIND KUMAR,  
*Apar Mukhya Sachiv.*